

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

- A) वी. श्रीनिवास
- B) राजेंद्र निमजे
- C) पूनम सिंह
- D) भरत लाल

सही उत्तर: D

गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

प्रश्न -2

गणित में निम्नलिखित में से किसने ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 जीता है?

- A) एंथनी ए. हाइमन
- B) क्लिफोर्ड पी. ब्रैंगविन
- C) डेनियल स्पीलमैन
- D) डेमिस हसबिस

सही उत्तर: C

गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डेनियल स्पीलमैन को दिया गया।

प्रश्न -3

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपने 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' कार्यक्रम के तहत कितने शहरों को रैंक करेगा?

- A) 141
- B) 131
- C) 123
- D) 113

डेली करंट अफेयर्स क्विज - 07 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: B

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' शुरू करने जा रहा है जो देश के 131 शहरों की रैंकिंग करेगा।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस राज्य में हिताची एस्टेमो ने अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है?

- A) गुजरात
- B) महाराष्ट्र
- C) राजस्थान
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: B

जापानी ऑटोमेकर हिताची एस्टेमो ने घोषणा की है कि उसने जलगांव, महाराष्ट्र में अपने विनिर्माण संयंत्र में 3-मेगावाट का एक ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।

प्रश्न -5

विदेश व्यापार नीति 2015-20 को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है?

- A) 7
- B) 6
- C) 5
- D) 4

सही उत्तर: B

सरकार ने अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति के कारण मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015-20) को मार्च 2023 तक और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 अक्टूबर 2022

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किसने स्टैशफिन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला?

- A) आर.के. गुप्ता
- B) राजेश वर्मा
- C) संजय खन्ना
- D) विजय जसूजा

सही उत्तर: D

SBI कार्ड के पूर्व MD और CEO विजय जसूजा को अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैशफिन का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

प्रश्न -7

खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?

- A) 29 सितंबर
- B) 27 सितंबर
- C) 26 सितंबर
- D) 25 सितंबर

सही उत्तर: A

खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है।

प्रश्न -8

राष्ट्रीय SC-ST हब कॉन्क्लेव हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था?

- A) गुजरात
- B) झारखंड
- C) महाराष्ट्र
- D) तमिलनाडु

सही उत्तर: A

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC-ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 अक्टूबर 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए?

- A) USA
- B) रूस
- C) जर्मनी
- D) चीन

सही उत्तर: A

चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के बीच क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता किया है।

प्रश्न -10

किस राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनी?

- A) केरल
- B) पंजाब
- C) तमिलनाडु
- D) तेलंगाना

सही उत्तर: A

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पुलुमपारा ग्राम पंचायत ने देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनने का गौरव हासिल किया।